



DELOITTE COMPILED MEDIA REPORT
07 May, 2025 – 16 May, 2025

Deloitte India’s latest report: Attracting AI Data Centre Infrastructure Investment in India

 Total Mention 117

 Print	Financial	Mainline	Regional	Periodical
14	N/A	6	8	N/A
 Tv	Business	English	Hindi	Regional
6	6	N/A	N/A	N/A
 Youtube	Business	English	Hindi	Others
1	1	N/A	N/A	N/A
 Online				

96

 Print

No	Newspaper	Headline	Edition	Pg
1.	The Times of India	India's AI growth rapidly boosts data centre demand	Bengaluru	15
2.	The Asian Age	AI adoption, expanding data centres to triple power demand, says IMF	Delhi	7
3.	Deccan Chronicle	AI adoption , expanding data centres to triple power demand , says IMF	Chennai	10
4.	Deccan Chronicle	AI adoption, expanding data centres to triple power demand, says IMF	Hyderabad	15
5.	Orissa Post	Quote of the day	Bhubaneshwar	11
6.	Free Press Journal	India may need addl 50 mn sqft real estate for data centres by 2030	Mumbai	10
7.	Business Remedies	Given the tremendous for AI infra , 45-50 million square feet of real estate space will be needed by...	Jaipur	4
8.	Business Remedies	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	Jaipur	1
9.	Sakshi	Data centers are a boon to real estate	Hyderabad	20
10.	Loksatta	50 million square feet of space needed for data center: Deloitte	Pune	20
11.	Dainik Savera	45-50 million square ft retail estate space required for AI in India	Chandigarh	5
12.	Punjab Kesari	Business Brief	Chandigarh	7
13.	Navodaya Times	India needs 5 trillion sq ft real estate area for data centres by 2030	Delhi	11
14.	Eenadu	Data center expansion is booming	Hyderabad	13

The Times of India • 09 May • Deloitte

India's AI growth rapidly boosts data centre demand

15 • PG236 • Sqcm871501 • AVE2.27M • CirTop Left

Bengaluru

India's AI growth rapidly boosts data centre demand

India's AI Market To Hit \$22 Billion By 2027: Deloitte Report

TIMES NEWS NETWORK

Bengaluru: India needs an additional 45-50 million square feet of real estate space and 40-45 terawatt hours (TWh) incremental power by 2030 to meet the growing demand for AI, according to a Deloitte report titled "Attracting AI Data Centre Infrastructure Investment in India." A terawatt-hour (TWh) represents an energy measurement equivalent to one trillion watt-hours. To illustrate its scale, approximately 5.5 million electric vehicles, each travelling 1,000 km, would use 1 TWh of electricity.

The report further suggests that targeted policy interventions will be critical in positioning India as a global AI hub. India's AI market is currently valued at \$7-8 billion and is poised to grow 2.5 times to reach \$20-22 billion by 2027. AI is expected to contribute approximately \$1 trillion to India's economy by 2035, underscoring AI's potential to enhance economic growth and create job opportunities. By 2027, India is projected to become the world's second-largest hub for AI expertise, with approximately 1.2-1.3 million professionals possessing AI-related skills and competencies.

"It's a generational opportunity for us to become the data centre provider to

INDIA'S DIGITAL EDGE METRICS

Country	Construction Cost (\$mn/MW)	Cost of Electricity (\$/kWh)	Cost of Data (\$/GB)	# IT Professionals (Mn)
India	7.5	0.08	0.16	5.43
US	9.5	0.18	6	-4.5
Canada	-	0.13	5.37	1.42
Germany	10	0.37	2.14	1.3
Japan	12.73	0.22	3.48	0.9
Singapore	11.23	0.25	0.63	0.21
Australia	9.17	0.27	0.44	1

the world," said S Anjani Kumar, partner in Deloitte India. "India has established itself as a global leader in IT by implementing transparent transfer pricing and safe harbour regulations. The nation possesses the potential to transform into a global data centre hub. For India to accelerate its AI capabilities and realise its potential, it is necessary to introduce enabling policies to support the sector," he added.

With the ever-increasing demands of AI, one can also expect a parallel growth in the storage capacity of data centres. Of the 147 zettabytes of data generated globally, 20% is generated in India, which has over 1,300 AI companies; however, India hosts only 2%, i.e., 150 data centres of the world's 11,000 data centres. India's data centre capacity per million Internet users stood at just 1MW, against 4MW in China.

India has 150 operational data centres in the country, with over 1200-1300 MW of IT load capacity in 2024 across tier-1 cities like Mumbai, Chennai, Bengaluru, and Delhi-NCR, accounting for more than 87 percent of the total inventory as of last year. Land acquisition in India faces several obstacles, including prolonged acquisition procedures and time-consuming approval mechanisms.

The Asian Age • 15 May • Deloitte

AI adoption, expanding data centres to triple power demand, says IMF

7 • PG

214 • Sqcm

149709 • AVE

389.96K • Cir

Bottom Center

Delhi

AI adoption, expanding data centres to triple power demand, says IMF

SANGEETHA G.
CHENNAI, MAY 14

The fast-paced adoption of artificial intelligence (AI) is expanding the need for data centres, which are forcing countries to triple their energy production. After China, and the US, data centres will vie with India for the slot of third largest power consumer by tripling its demand by 2030, finds the IMF.

As the 10th largest consumer, world's data centres consumed as much as 500 terawatt-hours (TWh) of electricity in 2023. This was more than double the annual levels from 2015-19. Going ahead, the power demand could triple to 1,500 terawatt-hours by

2030.

Electricity used by data centres alone at 500 TWh is already as much as that of power consumption in Germany or France. The data centre consumption would be comparable to that of India, third world's largest electricity user, by 2030, finds the IMF.

According to an earlier report by Omni-Science Capital, data centres and EVs will fuel India's power demand and both will consume 100 TWh power each by 2030.

India may need an additional 45-50 million square feet of real estate and 40-45 TWh of incremental power for data centres by 2030, to keep pace with the

surging demand for AI, according to Deloitte.

Currently, Mumbai leads data centre market with 53 per cent of real estate absorption, followed by Hyderabad at 14 per cent, and Chennai and Pune with 10 per cent each.

Global data centre power consumption will be 1.5 times as much power than EVs by decade's end. The IMF finds that EVs will be the sixth largest consumer of power by 2030.

Data centre energy consumption is likely to more than triple, exceeding 600 TWh, by 2030 in US, home to the world's largest concentration of centres.

Increasing electricity

demand from the technology sector will stimulate overall supply.

More sluggish supply responses, however, will spur much steeper cost increases that hurt consumers and businesses and possibly curb growth of the AI industry itself.

Efficient, open-source AI models like DeepSeek lower computing costs and electricity demand. However, reduced costs increase AI usage. The net effect on electricity demand is still uncertain, which may delay energy investments, causing higher prices. Policymakers and businesses must work together to ensure AI achieves its full potential, while minimising costs, said IMF.



Deccan Chronicle • 15 May • Deloitte

AI adoption , expanding data centres to triple power demand , says IMF

10 • PG

222 • Sqcm

390242 • AVE

1.15M • Cir

Bottom Center

Chennai

AI adoption, expanding data centres to triple power demand, says IMF

SANGEETHA G.
CHENNAI, MAY 14

The fast-paced adoption of artificial intelligence (AI) is expanding the need for data centres, which are forcing countries to triple their energy production. After China, and the US, data centres will vie with India for the slot of third largest power consumer by tripling its demand by 2030, finds the IMF.

As the 10th largest consumer, world's data centres consumed as much as 500 terawatt-hours (TWh) of electricity in 2023. This was more than double the annual levels from 2015-19. Going ahead, the power demand could triple to 1,500 terawatt-hours by

2030.

Electricity used by data centres alone at 500 TWh is already as much as that of power consumption in Germany or France. The data centre consumption would be comparable to that of India, third world's largest electricity user, by 2030, finds the IMF.

According to an earlier report by Omni-Science Capital, data centres and EVs will fuel India's power demand and both will consume 100 TWh power each by 2030.

India may need an additional 45-50 million square feet of real estate and 40-45 TWh of incremental power for data centres by 2030, to keep pace with the

surging demand for AI, according to Deloitte.

Currently, Mumbai leads data centre market with 53 per cent of real estate absorption, followed by Hyderabad at 14 per cent, and Chennai and Pune with 10 per cent each.

Global data centre power consumption will be 1.5 times as much power than EVs by decade's end. The IMF finds that EVs will be the sixth largest consumer of power by 2030.

Data centre energy consumption is likely to more than triple, exceeding 600 TWh, by 2030 in US, home to the world's largest concentration of centres.

Increasing electricity

demand from the technology sector will stimulate overall supply.

More sluggish supply responses, however, will spur much steeper cost increases that hurt consumers and businesses and possibly curb growth of the AI industry itself.

Efficient, open-source AI models like DeepSeek lower computing costs and electricity demand. However, reduced costs increase AI usage. The net effect on electricity demand is still uncertain, which may delay energy investments, causing higher prices. Policymakers and businesses must work together to ensure AI achieves its full potential, while minimising costs, said IMF.



Deccan Chronicle • 15 May • Deloitte

AI adoption, expanding data centres to triple power demand, says IMF

15 • PG

215 • Sqcm

801859 • AVE

2.55M • Cir

Bottom Center

Hyderabad

AI adoption, expanding data centres to triple power demand, says IMF

SANGEETHA G.
CHENNAI, MAY 14

The fast-paced adoption of artificial intelligence (AI) is expanding the need for data centres, which are forcing countries to triple their energy production. After China, and the US, data centres will vie with India for the slot of third largest power consumer by tripling its demand by 2030, finds the IMF.

As the 10th largest consumer, world's data centres consumed as much as 500 terawatt-hours (TWh) of electricity in 2023. This was more than double the annual levels from 2015-19. Going ahead, the power demand could triple to 1,500 terawatt-hours by

2030.

Electricity used by data centres alone at 500 TWh is already as much as that of power consumption in Germany or France. The data centre consumption would be comparable to that of India, third world's largest electricity user, by 2030, finds the IMF.

According to an earlier report by Omni-Science Capital, data centres and EVs will fuel India's power demand and both will consume 100 TWh power each by 2030.

India may need an additional 45-50 million square feet of real estate and 40-45 TWh of incremental power for data centres by 2030, to keep pace with the

surging demand for AI, according to Deloitte.

Currently, Mumbai leads data centre market with 53 per cent of real estate absorption, followed by Hyderabad at 14 per cent, and Chennai and Pune with 10 per cent each.

Global data centre power consumption will be 1.5 times as much power than EVs by decade's end. The IMF finds that EVs will be the sixth largest consumer of power by 2030.

Data centre energy consumption is likely to more than triple, exceeding 600 TWh, by 2030 in US, home to the world's largest concentration of centres.

Increasing electricity

demand from the technology sector will stimulate overall supply.

More sluggish supply responses, however, will spur much steeper cost increases that hurt consumers and businesses and possibly curb growth of the AI industry itself.

Efficient, open-source AI models like DeepSeek lower computing costs and electricity demand. However, reduced costs increase AI usage. The net effect on electricity demand is still uncertain, which may delay energy investments, causing higher prices. Policymakers and businesses must work together to ensure AI achieves its full potential, while minimising costs, said IMF.



Orissa Post • 09 May • Deloitte

Quote of the day

11 • PG 317 • Sqcm 94997 • AVE 171.26K • Cir Top Left

Bhubaneshwar



We have a target of 1 crore households for PM Surya Ghar Yojana, out of which 51 lakh applications have come in. Out of this, 12 lakh people have already received it and we are trying to complete our target of 1 crore households in next two years



JITENDRA SRIVASTAVA |
REC CHAIRMAN AND MD

While coal remains our mainstay in meeting India's expanding energy needs in the near term, our plans include a proactive role in building a greener and more sustainable future. This is in consonance with our commitment to become the country's integrated energy provide



PM PRASAD | CIL CHAIRMAN

A greater focus on building high-performance compute infrastructure, scalable power and cooling systems and efficient networking infrastruc-ture, with a reconsideration of policy framework, can make India a hotspot for AI-pow-ered data centre development in the coming years



NEHA AGGARWAL | PARTNER, DELOITTE INDIA

Free Press Journal • 09 May • Deloitte

India may need addl 50 mn sqft real estate for data centres by 2030

10 • PG97 • Sqcm77155 • AVE251.68K • CirMiddle Right

Mumbai

India may need addl 50 mn sqft real estate for data centres by 2030

PTI
NEW DELHI

India may need an additional 45-50 million square feet of real estate and 40-45 terawatt-hours (TWH) of incremental power for data centres by 2030, to keep pace with the surging demand for AI, according to Deloitte. Deloitte, in a report titled "Attracting AI Data Centre Infrastructure Investment in India", highlighted India's cost advantages, renewable energy focus, and strategic location but warned that the country's emergence

as a global AI hub hinges on bridging critical infrastructure, talent, and policy gaps. As per Deloitte India's latest report, the country could require an additional 45-50 million square feet of real estate space and 40-45 TWH incremental power by 2030 to meet the growing demand for AI.

The report identified six pillars for building a world-class AI ecosystem: real estate, power and utilities, connectivity, compute infrastructure, talent, and policy framework.

It called for targeted interventions, such as a separate cat-

egory for data centres in the National Building Code and recognition under the Essential Services Maintenance Act, to incentivise specialised infrastructure.

Fast-tracking and simplifying the approvals by setting up data centre facilitation units can help boost the deployment of data centres, it noted.

Deloitte called for policy support, streamlined data localisation norms and the creation of dedicated data centre zones, which it believes will be key to strengthening India's AI infrastructure.

Business Remedies • 10 May • Deloitte

Given the tremendous for AI infra , 45-50 million square feet of real estate space will be needed by...

4 • PG

252 • Sqcm

25184 • AVE

175K • Cir

Bottom Right

Jaipur

AI इंफ्रा की जबरदस्त मांग को देखते हुए 2030 तक 45-50 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस की होगी जरूरत: रिपोर्ट

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ने के साथ ही देश को इसे पूरा करने के लिए 2030 तक एडिशनल 45-50 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस और 40-45 टेरावाट घंटे (टीडब्ल्यूएच) अतिरिक्त बिजली की जरूरत हो सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

डेलॉइट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत डाटा केंद्रों के विकास के लिए लागत लाभ, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने और एक रणनीतिक स्थान प्रदान करता है। रिपोर्ट में आगे सुझाव दिया गया है कि भारत को वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करने में लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होंगे। रिपोर्ट में भारत के लिए छह प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है, ताकि देश विश्व में अग्रणी और एआई-रेडी इकोसिस्टम के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ये स्तंभ रियल एस्टेट, पावर एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट एंड पोलिसी फ्रेमवर्क हैं।

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर एस अंजली कुमार ने कहा कि भारत को अपनी एआई क्षमताओं में तेजी लाने और अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए सक्षम नीतियों को पेश करना आवश्यक है। डाटा एनालिटिक्स और प्रोसेसिंग की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को



अपना एआई-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) को मजबूत करना, टैलेंट पाइपलाइन में सुधार करना, स्थानीय डेटासेट को सुरक्षित करना

और सहायक नीतियां एआई-ड्रिवन विकास को और तेज करेंगी। विकास और निवेश के प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित कर और मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर, भारत ग्लोबल एआई इकोसिस्टम लीडर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

भारत का रणनीतिक स्थान इसे घरेलू और वैश्विक बाजारों को प्रभावी ढंग से सेवा देने की अनुमति देता है, जो इसे वैश्विक डाटा सेंटर इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में स्थापित करता है। डेलॉइट इंडिया की पार्टनर नेहा अग्रवाल ने कहा कि हालांकि, ग्लोबल एआई हब बनने के भारत के दिजन के लिए पारंपरिक डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा कि नीतिगत ढांचे पर पुनर्विचार के साथ उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केलेबल पावर, कूलिंग सिस्टम और कुशल नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अधिक ध्यान देने से भारत आने वाले वर्षों में एआई-संचालित डेटा सेंटर विकास के लिए एक हॉटस्पॉट बन सकता है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कोलोकेशन मॉडल में बढ़ती रुचि और विभिन्न राज्य सरकार डेटा सेंटर नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने वाली सरकारी पहल विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रही है।

Business Remedies • 09 May • Deloitte

AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report

1 • PG 144 • Sqcm 14434 • AVE 175K • Cir Middle Center
Jaipur

AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report

IAN S
New Delhi

Business Remedies. As demand for artificial intelligence (AI) infrastructure grows, the country could require an additional 45-50 million square feet of real estate space and 40-45 terawatt hours (TWH) incremental power by 2030 to meet the growing demand for AI, a report showed on Thursday.

India offers cost advantages, a renewable energy focus and a strategic location for the development of data centres, said a Deloitte report. The report further suggests that targeted policy interventions will be critical in posi-



tioning India as a global AI hub. The report identifies six key pillars for India to reach its full potential in building a world-leading and AI-ready ecosystem. These pillars are real estate, power and utilities infrastructure, connectivity and network infrastructure, compute infrastructure, talent and policy framework.

"For India to accelerate its AI capabilities and realise its potential, it is necessary to introduce enabling policies to support the sector. India must develop its AI-ready infrastructure to meet this rising demand for data analytics and processing," said **S Anjani Kumar, Partner, Deloitte India.**

Sakshi • 09 May • Deloitte
Data centers are a boon to real estate

20 • PG

151 • Sqcm

272355 • AVE

1.22M • Cir

Middle Center

Hyderabad

రియల్టీకి డేటా సెంటర్స్ దన్ను

- అదనంగా
50 మిలియన్ చ.అ. అవసరం
- 2030 నాటికి అంచనాలు
- డెలాయిట్ నివేదిక



న్యూఢిల్లీ: దేశీయంగా కృత్రిమ మేధకు డిమాండ్తో డేటా సెంటర్లు గణనీయంగా పెరగనున్న నేపథ్యంలో 2030 నాటికి అదనంగా 45-50 మిలియన్ చ.అ. రియల్ ఎస్టేట్ అవసరం ఏర్పడనుంది. అలాగే 40-45 టెరావాట్-ఆవర్స్ (టీడబ్ల్యూ హెచ్) విద్యుత్ కూడా కావాల్సి రానుంది. 'భారత ఏఐ డేటా సెంటర్ మౌలిక సదుపాయాల్లోకి పెట్టుబడుల ఆకర్షణ' పేరిట డెలాయిట్ రూపొందించిన నివేదికలో ఈ అంశాలు వెల్లడయ్యాయి. వ్యయాల పదమైన ప్రయోజనాలు, వునరుత్పాదక విద్యుత్పై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టడం, వ్యూహాత్మక స్థానంలో ఉండటం తదితర అంశాలు భారతీయ సానుకూలాంశాలని వివరించింది. అయితే, అంతర్జాతీయంగా ఏఐ హబ్గా ఎదగాలంటే కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, నిపుణుల లభ్యత, విధానాల్లో అంతరాలను తొలగించడం మొదలైనవి ప్రధానంగా ఉంటాయని పేర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయి ఏఐ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలంటే రియల్ ఎస్టేట్, విద్యుత్, కనెక్టివిటీ, కంప్యూటింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు, నిపుణులు, విధానాలు అనే ఆరు అంశాలు మూల స్తంభాలుగా ఉంటాయని నివేదిక తెలిపింది. నేషనల్ చిల్డ్రన్

కోడ్లో డేటా సెంటర్ల కోసం ప్రత్యేక శ్రేణిగిరిని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది.

నివేదికలోని మరిన్ని ముఖ్యాంశాలు..

- డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతుల ప్రక్రియను సరళీకరం, వేగవంతం చేయాల్సి ఉంటుంది.
- విధానాలపరంగా మద్దతు కల్పించాలి. డేటాలోకలైజేషన్ నిబంధనలను క్రమబద్ధీకరించాలి. ప్రత్యేక డేటా సెంటర్ జోన్లను ఏర్పాటు చేయాలి. ఇవి భారతదేశ ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేసేందుకు తోడ్పడతాయి.
- డేటా సెంటర్ల వేగవంతమైన విస్తరణ వల్ల పవర్ గ్రిడ్పై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీంతో విద్యుదుత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు, మౌలిక సదుపాయాలను అప్గ్రేడ్ చేసుకునేందుకు అత్యవసరంగా బారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు అవసరమవుతాయి.
- దేశీయంగా నెట్వర్క్, ఫైబర్ ఆప్టిక్ నెట్వర్క్లపరంగా పరిమితులు, గట్టిగా ఆధారపడలేని హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ మొదలైన వాటి పరిమితుల వల్ల డేటా సెంటర్లను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి ఉండొచ్చు.

Loksatta • 09 May • Deloitte

50 million square feet of space needed for data center: Deloitte

20 • PG

131 • Sqcm

76404 • AVE

272.51K • Cir

Bottom Center

Pune

डेटा सेंटरसाठी पाच कोटी चौरस फूट जागा हवी -डेलॉईट

पीटीआय, नवी दिल्ली

देशात विदा साठवण केंद्रे अर्थात डेटा सेंटरसाठी २०३० पर्यंत आणखी साडे चार ते पाच कोटी चौरस फूट जागा आणि ४० ते ४५ टेरॉवाट तास अतिरिक्त विजेची आवश्यकता भासेल. प्रामुख्याने कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) क्षेत्राशी निगडित केंद्रांच्या मागणीत होणारी वाढ याला कारणीभूत ठरेल, असा अंदाज डेलॉईटच्या ताज्या अहवालाने गुरुवारी वर्तविला.

देशात कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रात विदा केंद्रासारखी पायाभूत सुविधेच्या



उभारणीसाठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासंबंधीचा अहवाल डेलॉईटने गुरुवारी जाहीर केला. अहवालानुसार, तुलनेने केंद्र उभारणीचा कमी खर्च, अपारंपरिक ऊर्जेवर भर आणि जगाच्या हद्दीने

भारताचे महत्वाचे असलेले स्थान या बाबी देशात ही गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने उजव्या ठरातील. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील दरी कमी करणे, गुणवत्ता आणि धोरणात्मक त्रुटी दूर करण्यावर भर दिल्यास भारत जागतिक कृत्रिम प्रज्ञा केंद्र बनू शकते. देशात विदा केंद्रांसाठी २०३० पर्यंत आणखी ४.५ ते ५ कोटी चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. याचबरोबर यासाठी ४० ते ४५ टेरॉवाट तास अतिरिक्त वीज लागेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.

जागतिक दर्जाची कृत्रिम प्रज्ञा

परिसंस्था उभारण्यासाठी सहा गोष्टी आवश्यक आहेत. त्यात बांधकाम, ऊर्जा, दळणवळण, संगणकीय पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता आणि धोरणात्मक चौकट यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय पातळीवर विदा केंद्रांच्या उभारणीसाठी वेगळे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करावयाला हवा आणि त्यांना प्रोत्साहनपर सवलती दिल्या जाव्यात. अशा सुविधा उभारणीसाठी मंजुरीची प्रक्रिया सहजसोपी करावी, असे अहवालाने सुचविले आहे.

Dainik Savera • 09 May • Deloitte

45-50 million square ft retail estate space required for AI in India

5 • PG

173 • Sqcm

41528 • AVE

40.03K • Cir

Bottom Left

Chandigarh

भारत में एआई वृद्धि के लिए एडिशनल 45-50 मिलियन वर्ग फुट रियल एस्टेट स्पेस की जरूरत

सवेरा न्यूज/एजेंसी

नई दिल्ली, 8 मई : आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ने के साथ ही देश को इसे पूरा करने के लिए 2030 तक एडिशनल 45-50 मिलियन वर्ग फुट रियल एस्टेट स्पेस और 40-45 टरावाट घंटे (टीडब्ल्यूएच) अतिरिक्त बिजली की जरूरत हो सकती है। डेलॉयट की रिपोर्ट में कहा कि भारत डाटा केंद्रों के विकास के लिए लागत लाभ, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने और एक



रणनीतिक स्थान प्रदान करता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया कि भारत को वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करने में लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होंगे।

रिपोर्ट में भारत के लिए 6 प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है ताकि देश विश्व में अग्रणी और एआई-रेडी इकोसिस्टम के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ये स्तंभ रियल एस्टेट, पावर एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट एंड पॉलिसी

फ्रेमवर्क हैं। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एस अंजनी कुमार ने कहा, 'भारत को अपनी एआई क्षमताओं में तेजी लाने और अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए सक्षम नीतियों को पेश करना आवश्यक है। डाटा एनालिटिक्स और प्रोसेसिंग की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को अपना एआई-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए।' भारत का रणनीतिक स्थान इसे घरेलू और वैश्विक बाजारों को प्रभावी ढंग से सेवा देने की अनुमति देता है, जो इसे वैश्विक डाटा सेंटर इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में स्थापित करता है।

Punjab Kesari • 09 May • Deloitte

Business Brief

7 • PG

464 • Sqcm

428772 • AVE

867.98K • Cir

Top Left

Chandigarh



Business

Facts...

दुनिया की सबसे तेजी से 'कैरोलना रैपर' है, यह मिर्च अमेरिका तथा भारत के असम राज्य में छाई गयी है। यह इतनी तेजी है कि आपको जान भी ले सकती है।

बिजनेस ब्रीफ

भारत को बाटा सेंटर के लिए 2030 तक 5 करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट क्षेत्र की जरूरत

नई दिल्ली (प.स.): कृषि मेघा (ए.आई.) की बहुत ही योग के साथ सार्वजनिक बजट एकाई के लिए भारत को 2030 तक बाटा सेंटर के लिए अतिरिक्त 4.5 से 5 करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट क्षेत्र और 40-45 टेरावाट-घटे (टी.डब्ल्यू.एच.) की सुविधाएँ बिजली की आवश्यकता हो सकती है। भारत तथा अंतरा-कंपनी डेलीवरी ने एक रिपोर्ट में यह कहा है।

डेलीवरी ने भारत में ए.आई. बाटा सेंटर अवसर-चयन निवेश को आकर्षित करने' शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत के लाभ लाभ, नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक स्थल का उल्लेख किया है। हालाँकि, कंपनी ने चेतावनी दी कि वैश्विक ए.आई. केंद्र के रूप में देश का उपयोग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, प्रतिभा और नीतिगत अंतर को पट्टने पर निर्भर करता है।



जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने विंडसर प्रो की लांच

नई दिल्ली (बिजनेस न्यूज़): जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एमजी विंडसर प्रो को लांच किया है, जो व्यावसायिक लोगों की यात्रा को और भी आरामदायक और सुरक्षित बनाने वाला है। इस नए मॉडल में उन्नत तकनीकी सुविधाएँ और सुरक्षा फीचर्स के साथ 52.9 केडब्ल्यूएच की नई वेस्टी शामिल की गई है।

एमजी विंडसर प्रो को एक आकर्षक डिज़ाइन, बीएएएस मूल्य 12.49 लाख रुपये + 4.5 रुपये/किमी और एक्स-शोरूम कीमत 17,49,800 रुपये पर लांच किया गया। एमजी विंडसर प्रो के लांच पर बात करते हुए जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अरुण मेहरा ने कहा, "एमजी विंडसर ने भारत के 4 डब्ल्यू.डी. सेगमेंट की जूड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

टोयोटा ने रिकॉर्ड बिक्री की दर्ज

टोक्यो (प.स.): मोटर वाहन कंपनी टोयोटा ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करने की सूचना दी। हालाँकि, जनवरी-मार्च तिमाही में प्रमाण पेशाने के कारण इसका लाभ आंशिक रूप से प्रभावित हुआ।

टोयोटा मोटर कॉर्प के जनवरी-मार्च का मुद्र लाभ कुल 664.6 अरब येन (4.6 अरब अमेरिकी डॉलर) था। तिमाही में कुल बिक्री 1240 अरब येन (85.9 अरब अमेरिकी डॉलर) रही जो पिछले साल समान अवधि में 1100 अरब येन थी। समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में टोयोटा का मुनाफा 4770 अरब येन (33 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में बिक्री रिकॉर्ड 4800 अरब येन (333.6 अरब अमेरिकी डॉलर) रही। टोयोटा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 48500 अरब येन (337 अरब अमेरिकी डॉलर) की बिक्री का अनुमान लगाया है।



कल्याण ज्वैलर्स का प्रॉफिट 36.44 प्रतिशत बढ़कर 187.60 करोड़ रुपए हुआ

मुंबई (प.स.): आपणा खुदरा फ़िजेट कल्याण ज्वैलर्स का मार्च, 2025 की चौथी तिमाही का प्रॉफिट 36.44 प्रतिशत बढ़कर 187.60 करोड़ रुपए हो गया। रमणीकालीन तिमाही के दौरान कंपनी के परिचालन आय 36.60 प्रतिशत बढ़कर 6,181.53 करोड़ रुपए रही।

कंपनी का मुद्र लाभ 714 करोड़ रुपए रहा। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का राजस्व 35 प्रतिशत बढ़कर 25,045 करोड़ रुपए हो गया। कल्याण ज्वैलर्स के कार्यकारी निदेशक रमण कल्याणकर ने कहा, "फ़िजेट वित्त वर्ष से कार्यकारी मार्च के आगे बढ़ते हुए सोने की कीमतों में जो उछाल-छाड़ के बावजूद हमने चालू वित्त वर्ष की शानदार शुरूआत की है। हमने इस साल अपनी आय तृतीया बिक्री में मजबूत बुद्धि देखी और हम ख़ूबसूरत चालू तिमाही के दौरान शादी की खुशीयों के लिए उपभोक्ता मार्ग में उत्साहजनक बुद्धि देख रहे हैं।"

जिंदल स्टेनलेस का मुनाफा 18 प्रतिशत बढ़कर 590 करोड़ रुपए पर पहुंचा

नई दिल्ली (प.स.): जिंदल स्टेनलेस का मार्च में समग्र की वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का पर्यवेक्षण मुद्र मुनाफा 18 प्रतिशत बढ़कर 590 करोड़ रुपए से ग्व है। मुख्य रूप से दो अस्थायी मरों से एकसूत्र लाभ के कारण कंपनी का मुनाफा बढ़ा है।

कंपनी की मुद्र आयदनी 8 प्रतिशत बढ़कर 10,198 करोड़ रुपए हो गई। हालाँकि, पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का मुद्र मुनाफा इससे फ़िजेट वित्त वर्ष के 2,693 करोड़ से घटकर 2,500 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर 2 रुपए के लाभांश की सिफारिश की है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का एकीकृत मुद्र आय 3,899 करोड़ रुपए था।

India needs 5 trillion sq ft real estate area for data centres by 2030

11 • PG

143 • Sqcm

49928 • AVE

670.26K • Cir

Top Left

Delhi

भारत को डाटा सेंटर के लिए 2030 तक 5 करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट क्षेत्र की जरूरत

नई दिल्ली (एजेंसी): कृत्रिम मेधा (ए.आई.) की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए भारत को 2030 तक डाटा सेंटर के लिए अतिरिक्त 4.5 से 5 करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट क्षेत्र और 40-45 टेरावाट-घंटे (टी.डब्ल्यू.एच.) की वृद्धिशील बिजली की आवश्यकता हो सकती है। पेशेवर सेवा प्रदाता कंपनी डेलॉयट ने एक रिपोर्ट में यह कहा है।

डेलॉयट ने 'भारत में ए.आई. डाटा सेंटर अवसंरचना निवेश को आकर्षित करना' शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत के लागत लाभ, नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक स्थल का उल्लेख किया है। हालांकि, कंपनी ने चेतावनी दी कि वैश्विक ए.आई. केंद्र के रूप में देश का उभरना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, प्रतिभा और नीतिगत अंतर को पाटने पर निर्भर करता है।

Eenadu • 09 May • Deloitte
Data center expansion is booming

13 • PG

623 • Sqcm

978408 • AVE

2.05M • Cir

Middle Center

Hyderabad

డేటా సెంటర్ల విస్తరణ జోరు

• 2030 నాటికి 5 కోట్ల చ.అ. నిర్మాణ స్థలం అవసరం • డెలాయిట్ నివేదిక

దేశంలో డేటా సెంటర్ల విస్తరణ జోరుగా ఉంది. కృత్రిమ మేద(ఏఐ) ఆధారిత సేవలకు అధిక గిరాకీ ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణం. 2030 నాటికి డేటా సెంటర్లకు 5 కోట్ల చదరపు అడుగుల (ఎస్ ఎఫ్టీ) నిర్మాణ స్థలం, 40-45 టెరావాట్ అవర్ (టీడబ్ల్యు హెచ్) అదనపు విద్యుత్తు అవసరమని కన్సల్టెన్సీ సేవల సంస్థ డెలాయిట్ ఒక తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.



వ్యయాలు తక్కువగా ఉండడం, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులపై అధికంగా దృష్టి సారించడం, వ్యూహాత్మకమైన ప్రదేశం కావడం వల్ల డేటా సెంటర్లకు భారతదేశం 'గ్లోబల్ హబ్' గా ఎదుగుతోందని విశ్లేషించింది. రియల్ ఎస్టేట్ లభ్యత, విద్యుత్తు, అనుసంధానం, కంప్యూటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మానవ వనరుల లభ్యత, స్పష్టమైన ప్రభుత్వ విధానాల ఆవిష్కరణపై దృష్టి సారించటం ద్వారా ఈ అవకాశాన్ని మనదేశం అందిపుచ్చుకోవచ్చని పేర్కొంది.

డేటా సెంటర్ల పరిశ్రమకు అత్యవసర సేవల నిర్వహణ చట్టం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని, డేటా కేంద్రాలను నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ కింద ప్రత్యేక తరగతిగా గుర్తించాలని, తగిన ప్రోత్సాహకాలు- రాయితీలు ఇవ్వాలని సూచించింది. అంతేగాక నూతన

డేటా కేంద్రాలకు సత్వర అనుమతులు ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది.

బీఎన్ఎస్ఎస్ (భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత), 2023 చట్టం కింద సమాచారాన్ని తెలుసుకునే నిబంధనలను సవరించాలని, తద్వారా టెలికమ్యూనికేషన్ల చట్టం, 2023 కింద నిఘా పెట్టే అవకాశం లేకుండా చేయాలని పేర్కొంది. అయితే డేటా కేంద్రాల సత్వర విస్తరణ వల్ల విద్యుత్తు వినియోగం అనూహ్యంగా పెరిగి గ్రిడ్పై ఒత్తిడి పెరిగి పోతుందని, దీనికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఫైబర్ ఆప్టిక్ నెట్వర్క్ను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉన్నట్లు వివరించింది.

Channel Overview

Business Channel

Total Clip	Top Channel
6	ET NOW (6)

1.  ET NOW	6
---	---

Hindi Channel



No Coverage in this segment

English Channel



No Coverage in this segment

ET NOW
Deloitte



(Repeat) In Conversation With Abhrajit Ray (Founder And CIO Program Leader) On Deloitte’s tech trends report, emphasizing AI’...

Special • English • 01:02 PM 11 May, 2025

ET NOW
Deloitte



(Repeat) In Conversation With Abhrajit Ray (Founder And CIO Program Leader) On Deloitte’s tech trends report, emphasizing AI’...

Special • English • 07:02 AM 11 May, 2025

ET NOW
Deloitte



In Conversation With Abhrajit Ray (Founder And CIO Program Leader) On Deloitte’s tech trends report, emphasizing AI’s shift t...


Startup Central • English • 09:32 AM 10 May, 2025

ET NOW
Deloitte

snapImage

In Conversation With Abhrajit Ray (Founder And CIO Program Leader) On Deloitte’s tech trends report, emphasizing AI’s shift t...

Startup Central Fatafat • English • 06:04 AM 08 May, 2025



In Conversation With Abhrajit Ray (Founder And CIO Program Leader) On Deloitte’s tech trends report, emphasizing AI’s shift t...

Startup Central • English • 10:35 PM 07 May, 2025



In Conversation With Abhrajit Ray (Founder And CIO Program Leader) On Deloitte’s tech trends report, emphasizing AI’s shift t...

Startup Central • English • 06:05 PM 07 May, 2025

Youtube Overview

Business Channel

Total Clip	Top Channel
1	ET NOW (1)
1.  ET NOW	
	1

Hindi Channel



No Coverage in this segment

English Channel



No Coverage in this segment



 Deloitte's Tech Trend 2025: India Embarks On AI Hardware Renaissance| ...

ET NOW

Deloitte

07 May, 2025

 N/A

 N/A views

 2.31M



Online Coverage

No	Portal Name	Headline (Incorporated with URL)	Reach
1.	Msn India	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	733.9M
2.	Mint	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	40.8M
3.	Zee News Hindi	AI Surge In India Requires Additional 45-50 Million Sq ft Real Estate: Report	31.9M
4.	The Economic Times	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	28.7M
5.	Dailyhunt	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	18.6M
6.	Prokerala.com	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	13M
7.	Zee Business	AI इफ्रा की जबरदस्त मांग; 2030 तक 45-50 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस की जर...	9.6M
8.	Latestly	Business News AI Surge Requires 50 Million Sq Ft Additional Real Estate, 45 T W...	7.8M
9.	IBC24 News	भारत को डेटा सेंटर के लिए 2030 तक पांच करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट क्षेत्र की जरू...	7.3M
10.	The Tribune India	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	7M
11.	The Hindu Business Line	India must expand real estate and power infra to meet AI demand, says report	5M
12.	Ani News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	1.9M
13.	LatestLY हिन्दी	भारत में AI वृद्धि के लिए एडिशनल 45-50 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस की जरूर...	1.3M
14.	Devdiscourse	India's AI Boom: Real Estate and Energy Needs for Future Data Centers	1.2M
15.	Telecomtalk	India's AI Surge May Require 50 Million Sq Ft More Real Estate for Data Centres. ...	1.1M
16.	The Week	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030 Deloit...	888.3K
17.	Latestly	⚡ Estate AI: भारतात एआय वाढीसाठी रिअल इस्टेट आणि 45 TWh अतिरिक्त वीजेची गर ज-...	664.7K
18.	Latestly	Real Estate AI: भारतात एआय वाढीसाठी रिअल इस्टेट आणि 45 TWh अतिरिक्त वीजेची गरज- ..	664.7K
19.	India Herald	AI Surge In India Requires An Extra 45–50 Million Find out more:	651.5K
20.	ThePrint	भारत को डेटा सेंटर के लिए 2030 तक पांच करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट क्षेत्र की जरू...	483.1K
21.	Social News XYZ	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	415.2K
22.	Investment Guru India	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate.	312.6K
23.	Press Trust of India	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	200.1K
24.	Sakshipost EN	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	160.8K
25.	News Drum	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	158.4K

26.	CXOtoday.com	India's AI surge could require an additional 45–50 million sq ft real estate an...	138.7K
27.	Construction Week Online India	India's AI surge could require 45–50 million sq ft real estate: Deloitte report	127.1K
28.	BizzBuzz	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	125.6K
29.	Lokmatimes.com	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	94.3K
30.	Lokmatimes.com	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	94.3K
31.	WebIndia123	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	61.9K
32.	Bhaskar Live	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	46.5K
33.	Etcio	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	5K
34.	ETTelecom	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	5K
35.	Hi INDiA	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	2.4K
36.	Daily Prabhat	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	280
37.	Realty Nxt	India To Need 50 Million Sq Ft Data Centre Space & 45 TWH Power By 2030: Re p...	N/A
38.	New India	भारत में एआई की वृद्धि के लिए 2030 तक 45 टीडब्ल्यूएच बिजली की जरूरत : रिपोर्ट	N/A
39.	Minute To Know	India may need additional 50 mn sqft real estate for data centres by 2030: Deloi...	N/A
40.	IBC World News	India needs more space for growing AI sector	N/A
41.	ET Realty	India may need 50 million sq ft real estate, 45 TWH power for AI data centres by...	N/A
42.	Cio & Leader	India's AI surge could require an additional 45–50 million sq ft real estate and...	N/A
43.	Daily World Hindi	भारत को डेटा सेंटर के लिए 2030 तक पांच करोड़ वर्ग फुट रियल एस्टेट क्षेत्र की जरू...	N/A
44.	United News Of India	भारत में एआई की वृद्धि के लिए 2030 तक 45 टीडब्ल्यूएच बिजली की जरूरत : रिपोर्ट	N/A
45.	Hamara Mahanagar	India AI Development: भारत में एआई की वृद्धि के लिए 2030 तक 45 टीडब्ल्यूएच बिजली...	N/A
46.	News Arena India	50 mn sq ft needed for data centres by 2030: Deloitte report	N/A
47.	Pune News	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	N/A
48.	Vishvatimes	भारत में एआई वृद्धि के लिए एडिशनल 45-50 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस की जरू...	N/A
49.	Aurumproptech	India's AI Boom to Drive Massive Real Estate and Power Demand by 2030	N/A
50.	Eflip	AI Surge In India Requires Additional 45-50 Million Sq ft Real Estate: Report	N/A
51.	Calcutta News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
52.	Rediff.com	India Needs 50 Mn Sqft for Data Centers by 2030: Deloitte	N/A
53.	Khair News	भारत में एआई वृद्धि के लिए एडिशनल 45-50 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस की जरू...	N/A

54.	OB News	AI SURGE In India Requires Additional 45-50 Million Sq Ft Real Estate: Report ..	N/A
55.	The Mobi World	AI SURGE In India Requires Additional 45-50 Million Sq Ft Real Estate: Report ..	N/A
56.	Suryaa	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report Te...	N/A
57.	The Hawk	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	N/A
58.	Kolkata Sun	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
59.	Mumbai News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
60.	New Delhi News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
61.	Industries News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
62.	India's News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
63.	Vishva Times	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	N/A
64.	Media Express24	India's AI surge could require an additional 45–50 million sq ft real estate an...	N/A
65.	Hello Kotpad	India's AI surge could require an additional 45–50 million sq ft real estate an...	N/A
66.	Business News This Week	India's AI surge could require an additional 45–50 million sq ft real estate an...	N/A
67.	Local Business News	India's AI surge could require an additional 45–50 million sq ft real estate an...	N/A
68.	Marketing News Online	India's AI surge could require an additional 45–50 million sq ft real estate an...	N/A
69.	World News Network	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
70.	North East Times	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
71.	Palgharnews	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
72.	Jharkhandtimes	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
73.	Gujarat Samachar	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
74.	Newspoint	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	N/A
75.	Maharashtra Samachar	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
76.	Daily World	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report -A...	N/A
77.	West Bengal Khabar	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
78.	Odisha Post	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
79.	Thefreedompress	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	N/A
80.	Punjab Live	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
81.	Haryana Today	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A

82.	Bihar 24x7	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
83.	South India News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
84.	Kashmir Newsline	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
85.	Himachal Patrika	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
86.	Bollywoodcountry	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	N/A
87.	Ians	AI surge in India requires additional 45-50 million sq ft real estate: Report	N/A
88.	Gujarat Varta	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
89.	Vanakkam Tamil Nadu	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
90.	Delhi live news	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
91.	Karnataka Live	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
92.	Rajasthan Ki Khabar	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
93.	Chhattisgarh Today	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
94.	Bihar Times	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
95.	Kashmir Breaking News	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A
96.	Indian News Network	AI surge requires 50 million Sq Ft additional real estate, 45 TWH incremental po...	N/A